

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. पंचायत सेल-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 25 की उपधारा (2) सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम 1995 के (3) के द्वारा पदस्थ शक्तियां का प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में दर्शाये गये जिले की अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाये गये जनपद पंचायत के अध्यक्ष के स्थान को स्तम्भ क्रमांक (3) दर्शाये गये विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य के लिये आरक्षित करता हूँ तथा स्तम्भ (4) में दर्शायी गयी जनपद पंचायत के अध्यक्ष के स्थान को उस प्रवर्ग की महिला के लिये आरक्षित रखना अवधारित कर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जारी की जाती है :—

अनुसूची

जिला	जनपद पंचायत का नाम	जिस वर्ग के सदस्य के लिये अध्यक्ष पद आरक्षित है उसका विवरण	जिस वर्ग की महिला के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित है, उसका विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
मंदसौर	मंदसौर	अनुसूचित जाति	-
	सीतामउ	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
	मल्हारगढ़	अनारक्षित	अनारक्षित
	गरोठ	अनारक्षित	-
	भानपुरा	अनारक्षित	अनारक्षित

संजीव सिंह, कलेक्टर.

मंदसौर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. पंचायत सेल-14-7465.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (3), (4) तथा (5) द्वारा पदस्थ शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में दर्शायी जिला पंचायत स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये निर्वाचन क्षेत्र के स्थान अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये विवरण अनुसार यथा स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित करता हूँ एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये विवरण अनुसार उस प्रवर्ग की महिला सदस्य के लिये आरक्षित रखना अवधारित कर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जारी की जाती है :—

अनुसूची

जिला मंदसौर

जिला पंचायत का नाम (1)	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक (2)	जिस वर्ग के सदस्य के लिये पद आरक्षित है उसका विवरण (3)	जिस वर्ग की सदस्य महिला के लिए पद आरक्षित है, उसका विवरण (4)
मंदसौर	12	अनुसूचित जाति	-
	1	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
	6	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
	8	अनुसूचित जनजाति	-
	11	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	14	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
	16	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	17	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
	2	अनारक्षित	-
	3	अनारक्षित	अनारक्षित
	4	अनारक्षित	-
	5	अनारक्षित	-
	7	अनारक्षित	अनारक्षित
	9	अनारक्षित	अनारक्षित
	10	अनारक्षित	-
	13	अनारक्षित	अनारक्षित
	15	अनारक्षित	अनारक्षित

संजीव सिंह, कलेक्टर.